

तथा रांची जिलों के बारे में भी जानकारी दी गई है :—

(मात्रा मीटरी टक्कों में)

वर्ष	प्रद्विल भारतीय उत्पादन	बिहार में उत्पादन	रांची में उत्पादन
1974-75	24,690	14,525	5,774
1975-76	21,767	12,853	7,066
1976-77	23,869	15,559	7,846

(ग) जी हाँ। बिहार, उडीसा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लाख के विकास के लिये भारत सरकार ने, पांचवी योजना की अवधि के दौरान, 9.00 लाख रुपये की लागत की बेन्द्रीय क्षेत्र की योजना मज़ूर की है। इसमें (1) लाख के उत्पादकों को लाख-पूर का मुफ्त संभरण (2) काट-छंट के उपकरणों की निःशुल्क सप्लाई, पैकेज खण्डों में लाख की खेती की उत्तर पद्धतियों के प्रदर्शन और बुड़ लाख के फार्मों में रख-रखाव का प्रावधान है।

#### Translation of Nepali Books

2476. SHRI K. B. CHETTRI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) the number of inter-language translation of Nepali books after the recognition of Nepali language by Sahitya Akademi;

(b) whether Government have selected any qualitative book for award to the best authors; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) Inter-language translation of Nepali books is still to be taken up by the Sahitya Akademi.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

अन्तर्राष्ट्रीय खेल के रूप में कबड्डी का खेल

2477. श्री ज्ञावम्बो प्रसाद यादव : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में राष्ट्रीय खेल कबड्डी को शामिल करने का प्रयास करने का विचार है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में 'कबड्डी' को एक खेल के रूप में स्वीकार करना, अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति, एशियाई खेल फेडरेशन, कामनवैत्य खेल फेडरेशन आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय खेल निकायों का काम है, बशतें कि इन निकायों द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी होती हो। भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन ने कबड्डी को अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में शामिल कराने के लिये प्रयत्न करने का आश्वासन दिया है। यह मामला सरकार के हाथ में नहीं है।